



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 6—नवम्बर 12, 2010 (कार्तिक 15, 1932)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 6—NOVEMBER 12, 2010 (KARTIKA 15, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 1 अप्रैल 2010

सं. ए-32013/1/2010-प्रशा.-II--संघ लोक सेवा आयोग में सक्षम  
प्राधिकारी एतद्वारा आयोग कार्यालय में श्रीमती राज किशोरी जॉन, अधीक्षक  
(डी पी) को पी बी-3, 15,600--39,100/- रु. ग्रेड पे 5,400/- रु. में  
सहायक नियंत्रक (डी पी) (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह क राजपत्रित,  
अननु सचिवालय) के पद पर दिनांक 01.04.2010 (एक अप्रैल दो  
हज़ार दस) या अगले आदेशों तक नियमित पदोन्नति आधार पर नियुक्त  
करते हैं।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 24 मई 2010

सं. ए-35018/3/2009-प्रशा.-II--इस कार्यालय की दिनांक 27.11.2009  
को समसंख्यक कार्यालय अधिसूचना के क्रम में श्री अवधेश ठाकुर,

आशुलिपिक ग्रेड "डी", संघ लोक सेवा आयोग, को सचिव, संघ लोक  
सेवा आयोग के स्टाफ अधिकारी के पद पर संशोधित वेतन ढांचा पी.  
बी-2, 9,300--34,800/- रु. सहित ग्रेड पे 4,800/- रु. प्रतिमाह, (ग्रुप  
"ख" राजपत्रित) में तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि अगले 03 महीने  
अर्थात् 19.05.2010 से 18.08.2010 (दिनांक 18.05.2010 को तकनीकी  
ब्रेक देते हुए) की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक या  
अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित की जाती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-35018/2/2009-प्रशा.-II--इस कार्यालय की दिनांक 27.11.2009  
की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री राजेश जोशी, आशुलिपिक ग्रेड  
"सी", संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के  
स्टाफ अधिकारी के पद पर संशोधित वेतन ढांचा पी.बी-2,  
9,300--34,800/- रु. सहित ग्रेड पे 4,800/- रु. (ग्रुप "ख" राजपत्रित)  
में तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि अगले 03 महीने अर्थात्  
19.05.2010 से 18.08.2010 (दिनांक 18.05.2010 को तकनीकी ब्रेक

देते हुए) की अवधि या नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित की जाती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 30 जून 2010

सं. ए-38013/17/2009-प्रशा.-III--संच लोक सेवा आयोग के के. सचि. से. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री आई. सी. नांगिया की अधिवर्षिता आयु पूरी होने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 जून, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 1 जुलाई 2010

शुद्धिपत्र

सं. ए-32014/1/2005-प्रशा.-III--इस कार्यालय के दिनांक 18 जून, 2010 के समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक आशोधन करते हुए श्री राजेन्द्रन नायर एम. बी. की नियुक्ति की तारीख को 17.06.2010 (अपराह्न) के स्थान पर 17.06.2010 (पूर्वाह्न) पढ़ा जाए।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 14 जुलाई 2010

सं. ए-32014/1/2009-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, सं.लो.से.आ. के के. सचिव. से. संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ पदोन्नति अवधि को दिनांक 12.07.2010 से 31.12.2010 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

क्रम	नाम	चयन सूची वर्ष
1	2	3
	(सर्व श्री/श्रीमती)	
1.	अनुपम पांडेय	1995
2.	जे. सी. कटोच	1995
3.	जे. पी. साह (अ.ज.जा.)	1995
4.	सुशीला एक्का (अ.ज.जा.)	1995
5.	प्राणेश्वर कुमार	1995
6.	एस. पी. बिष्ट	1996
7.	जगजीत कौर	1996
8.	आर. पी. शर्मा	1996

1	2	3
9.	आदित्य नारायण	1996
10.	शांति लता टोप्पो (अ.ज.जा.)	1996
11.	सुधीर कुमार	1996
12.	ए. के. शौकीन	1996
13.	अशोक कुमार कोन्दल	1996
14.	अरुण कुमार-I (अ.जा.)	1997
15.	हरी राम मोणा (अ.ज.जा.)	1998
16.	पुष्पा रानी (अ.ज.जा.)	1999

2. उपर्युक्त सहायकों की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन होगी :-

- उपर्युक्त सहायकों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति 31.12.2010 नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी।
- तदर्थ पदोन्नति पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक प्रदान नहीं करेगा।
- तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार या तो वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल डी सी ई) द्वारा उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दोनों वर्गों में से किसी एक के लिए नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं प्राप्त करते हैं, तो ऐसे नियमित अनुभाग अधिकारी को का. एवं प्रशि. विभाग द्वारा उन्हें आबंटित संबंधित संवर्ग एकक में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 22 जुलाई 2010

सं. ए-32014/1/2009-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, सं.लो.से.आ. के के. सचि. सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ पदोन्नति अवधि को दिनांक 01.07.2010 से 31.12.2010 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

क्रम	नाम	चयन सूची वर्ष
1	2	3
	(सर्व श्री/श्रीमती)	
1.	ए. के. शर्मा	1991
2.	अरुण कुमार-II	1992

1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती	
3.	एस. के. पुरी	1992
4.	बी. एस. छोकर	1992
5.	वाई. पी. कामरा	1992
6.	रानी कौशिक	1992
7.	शोभा शर्मा	1992
8.	सावित्री ठुकराल	1992
9.	जी. एस. आज़ाद	1992
10.	बिजेन्द्र सिंह	1993
11.	एच. एस. दलाल	1993
12.	एस. एल. अशोदिया	1993
13.	मौ. नदीम	1993
14.	संतोष शर्मा	1993
15.	वीना मदान	1993
16.	एस. के. चड्ढा	1993
17.	डी. के. कंग	1993
18.	गुलशन चंद	1993
19.	पी. के. खन्ना	1993
20.	जगदीश चंदर गाबा	1994
21.	बी. एस. पठानिया	1994
22.	एस. सी. कालिया	1994
23.	सुभाष चन्दर	1995
24.	दिनेश शर्मा	1995
25.	एस. सी. एस. रावत	1995
26.	रमेश सिंह	1995
27.	कल्पना विराट	1995
28.	टिन्दुस सोरेंग	1995

2. उपर्युक्त सहायकों की अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

(i) उपर्युक्त सहायकों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति 31.12.2010 नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, होगी।

(ii) तदर्थ पदोन्नति पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक होगा।

(iii) तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार या तो वरिष्ठता कोट और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एल डी सी ई) द्वारा उपलब्ध नहीं होते हैं। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दोनों वर्गों में से किसी एक के लिए नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं प्राप्त करते हैं, तो ऐसे नियमित अनुभाग अधिकारी को का. एवं प्रशि. विभाग द्वारा उन्हें आबंटित संबंधित संवर्ग एकक में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 30 जुलाई 2010

सं. ए-38013/1/2010-प्रशा.-III--संघ लोक सेवा आयोग के के. सचि. से. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्रीमती गुरदीप कौर की अधिवर्षिता आयु पूरी होने के परिणामस्वरूप दिनांक 31 जुलाई, 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 6 अक्टूबर 2010

सं. ए-32014/1(ii)/2009-प्रशा.-III(भाग)--के. सचि. से. के अनुभाग अधिकारियों के चक्रानुक्रम स्थानांतरण/तैनाती के संबंध में का. एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 27.8.2010 के का. ज्ञा. सं. 06/5/2009-सी. एस.-I(एस) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग के के. सचि. से. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री आर. के. डागर को दिनांक 6 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न से तत्काल वाणिज्य मंत्रालय को रिपोर्ट करने के निदेश सहित आयोग कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

2. श्री आर. के. डागर सतर्कता दृष्टिकोण से निर्बाध है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-32014/1(i)/2009-प्रशा.-III(भाग)--का. एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 27.8.2010 के का. आ. सं. 06/5/2009-सी.एस.-I(एस) के अनुसरण में शहरी विकास मंत्रालय के दिनांक 29 सितम्बर, 2010 के का.आ.सं. ए-32014/5/2009-प्रशा.-I के तहत के. सचि. से. संवर्ग की अनुभाग अधिकारी श्रीमती साधना बाउल को शहरी विकास मंत्रालय से कार्यमुक्त किए जाने पर उन्हें दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी की सूची में शामिल कर लिया गया है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 7 अक्टूबर 2010

सं. ए-80011/13/09-आर टी आई सेल (प्रशा.)--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई विशिष्ट विषय वस्तु के संबंध में एतद्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है :--

क्र. केंद्रीय लोक सूचना सं. अधिकारी का नाम	विषय वस्तु	अपीलीय प्राधिकारी का नाम
1. श्री एन. मुखर्जी, अवर सचिव (एस पी सी) टेली नं. 23387296	भ. I, स्कूटनी अनुभाग, विशेष प्रकोष्ठ I, विशेष प्रकोष्ठ II, सलाहकार प्रकोष्ठ, पैनल एवं डाटा बैंक तथा प्रोग्राम एकक से संबंध सूचना अधिकार अधिनियम के सभी मामले	श्री विनय कुमार कनैजिया, संयुक्त सचिव (भ. I), दूरभाष नं. 23385374
2. श्री एन. के शर्मा उप सचिव (भ. II), दूरभाष नं. 23381552 फैक्स नं. 23388294	भ. II, भ. III, भ. V, स्कूटनी अनुभाग, भ. (सम. एवं नी.) तथा आर टी आई सेल (भर्ती) से संबंध सूचना अधिकार अधिनियम के सभी मामले	श्री कमल भगत, संयुक्त सचिव (भ. II), दूरभाष नं. 23385627 फैक्स नं. 23388294
3. श्री एस. कन्नपन्न उप सचिव (भ. VI), दूरभाष नं. 23385269 फैक्स नं. 23388294	भ. IV, भ. VI, स्कूटनी अनुभाग, एवं भ.वि. (उम्मीदवारों का अनुदेश) से संबंध सूचना अधिकार अधिनियम के सभी मामले	श्री कमल भगत, संयुक्त सचिव (भ. II), दूरभाष नं. 23385627 फैक्स नं. 23388294

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110069, दिनांक 20 सितम्बर 2010

सं. ए-19014/24/2010-प्रशा-I--कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 03 सितम्बर, 2010 के आदेश सं. 5/3/2010-सी.एस.-I (यू) के तहत के.सचि.से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उनकी पदोन्नति तथा सं.लो.से.आ. संवर्ग में उनके नामांकन के परिणामस्वरूप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के के. सचि. से. संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री विनोद कुमार (जन्म की तारीख : 19.09.1970) (सी.एस.एल. सं. 6777) को दिनांक 17 सितम्बर, 2010 से सं.लो.से.आ. में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। अवर सचिव (तदर्थ) के पद पर उनकी नियुक्ति 31.05.2011 तक अथवा नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है :--

- तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या के. सचि. से. के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

- तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

- अधिकारी को के.सचि.से. के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में यथावर्णित 06 महीने की अवधि के भीतर 'डी' स्तर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।

- अधिकारी की तदर्थ पदोन्नति श्री पी. आर. शर्मा बनाम, भारत संघ ओ. ए. सं. 3294/2009 तथा श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ तथा अन्य ओ. ए. सं. 2674/2009 जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है, के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

ए. के. अहलूवालिया  
वरि. प्रशासनिक अधिकारी

दिनांक 6 अक्टूबर 2010

सं. ए-19014/26/2010-प्रशा-I--कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 03 सितम्बर, 2010 के आदेश सं. 5/3/2010-सी.एस.-I (यू) के तहत के.सचि.से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उनकी पदोन्नति तथा सं.लो.से.आ. संवर्ग में उनके नामांकन के परिणामस्वरूप वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, के के.सचि.से. संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री तरविन्दर सिंह (जन्म की तारीख : 07.07.1965) (सी.एस.एल. सं. 6674) को दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से सं.लो.से.आ. में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। अवर सचिव (तदर्थ) के पद पर उनकी नियुक्ति 31.05.2011 तक अथवा नियमित आधार पर पद को भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, होगी।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है :--

- तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या के.सचि.से. के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

- तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

- अधिकारी को के.सचि.से. के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में यथावर्णित 06 महीने की अवधि के भीतर 'डी' स्तर का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।

- अधिकारी की तदर्थ पदोन्नति श्री पी. आर. शर्मा बनाम, भारत संघ ओ. ए. सं. 3294/2009 तथा श्री पी. एस. भंडारी बनाम भारत संघ तथा अन्य ओ. ए. सं. 2674/2009 जो केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है, के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

ए. के. अहलूवालिया  
वरि. प्रशासनिक अधिकारी

## केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. डीपी/पर्स. 1/2010/66/3/40/2003--श्री भानू भास्कर, भा.पु. सेवा (उत्तर प्रदेश : 1996), पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का केन्द्र में अधिकतम 7 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो जाने पर दिनांक 14.10.2010 के अपराह्न से उनकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाती हैं।

एम. सचदेव  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

## केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-23, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. 2/35/10-प्रशासन/105967--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री हरि कुमार, सी.सी.एस. (77) को आयोग में अपर सचिव (संयुक्त निदेशक स्तर) के पद पर वेतन बैंड रुपए 37,400--67,000/- में ग्रेड वेतन रु. 10,000/- के साथ दिनांक 04.10.2010 (पूर्वाह्न) से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 31.01.2012 की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

सुरजीत सिंह  
निदेशक (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

## गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

सं. पी. तीन-2/2010-मंत्रा.--कार्यालय निदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, आई.एस.ए., के.रि.पु. बल, माउंट आबु के श्री लक्ष्मण दास, प्रशासनिक अधिकारी (ईरला संख्या-7656) का दिनांक 01.09.2010 (पूर्वाह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार होने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 01.09.2010 (पूर्वाह्न) से प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार त्याग कर दिया है।

रविन्द्र नाथ मिश्र  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

सं. ओ. दो. 2572/89-कार्मिक (चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका स्वेच्छा सेवा निवृत्ति स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. सतीश गाटे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस.जी.) (इरला-2817) सी. एच. के.रि.पु. बल, बैलासपुर द्वारा दिनांक 01.08.2010 (पूर्वाह्न) को कार्यभार सौंप दिया गया है। तदनुसार, इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 01.08.2010 (पूर्वाह्न) से हटया गया है।

टी. चंद्रशेखरन  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ. दो. 2573/89-कार्मिक (चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका स्वेच्छा सेवा निवृत्ति स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. शुभांगी गाटे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस.जी.) (इरला-2818) सी. एच. के.रि.पु. बल, बैलासपुर द्वारा दिनांक 01.08.2010 (पूर्वाह्न) को कार्यभार सौंप दिया गया है। तदनुसार, इस बल की नफरी से उनका नाम दिनांक 01.08.2010 पूर्वाह्न से हटया गया है।

टी. चंद्रशेखरन  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

## समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 15 अक्टूबर 2010

सं. ए-17011/07/(एन-38)/2010-प्रशा.-I--इस निदेशालय की श्रीमती नरेश धूरिया, निजी सचिव, सी.एस.एस.एस. कॉडर, अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 30.09.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

पी. के. सिंहल  
निदेशक

## महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 2 अक्टूबर 2010

## शुद्धि-पत्र

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक. 1/870--इस महानिदेशालय के पत्र सं. ई-16015(2)/32/2009/कार्मिक. 1/174 दिनांक 29.09.2010 के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में।

उपरोक्त अधिसूचना की क्रम सं. 13 पर श्री मधू ए. कमाण्डेंट के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के स्थान पर :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	उप महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
13.	श्री ए. मधु	पीटीपीएस पतरातु	14.10.2006 (नोशनल तिथि) 26.03.2010 (पूर्वाह्न) वास्तविक पदोन्नति की तिथि

पढ़ा जाए :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	कमाण्डेंट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
13.	श्री ए. मधु	पीटीपीएस पतरातु	14.10.2006 (नोशनल तिथि) 26.04.2010 (पूर्वाह्न) वास्तविक पदोन्नति की तिथि

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.औसुब

दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. ई-16016(5)/5/2003/कार्मिक. 1/पार्ट. II/212--के.औ.सु.ब. द्वारा, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) के दिनांक 26.07.2007 को रिट याचिका संख्या 1454/2004 पर जारी किए गए आदेश के विरुद्ध दायर की गई सिविल एस.एल.पी. संख्या सी.सी. 3338/2008 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2008 को जारी निर्णय के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने दिनांक 06 अक्टूबर, 2009 के पत्र सं. ई-16016(5)/5/2003/गृह मंत्रालय/के.औ.सु.ब./कार्मिक. 1/पार्ट-II/958 के अंतर्गत डॉक्टर (श्रीमती) दुर्गा भवानी राजनाला की के.औ.सु.ब. में तदर्थ नियुक्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव से दिनांक 29.10.1994 से (अतः जिस दिन से के.औ.सु.ब. में उनकी तदर्थ नियुक्ति की गई थी) निम्नलिखित निबंधन व शर्तों सहित नियमित कर दिया है :-

(क) वह के.औ.सु.ब. तथा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के संयुक्त मेडीकल काडर में कम्बेटाइज्ड रूप में रहेंगी क्योंकि के.औ.सु.ब. का अपना मेडीकल काडर नहीं है। के.औ.सु.ब. व भातिसीपु बल का संयुक्त मेडीकल काडर है तथा भातिसीपु बल काडर नियंत्रण प्राधिकारी है जो कि के.औ.सु.ब. में ड्यूटी के आधार पर कम्बेटाइज्ड रूप में चिकित्सा अधिकारी मुहैया कराते हैं।

(ख) डॉक्टर (श्रीमती) दुर्गा भवानी राजनाला की सेवा से संबंधित मामले जैसे कि पदोन्नति, वरीयता आदि की व्यवस्था काडर नियंत्रण प्राधिकारी होने के कारण, चिकित्सा अधिकारियों के भर्ती नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार भातिसीपु बल द्वारा व्यवस्थित किए जाएंगे।

(ग) उन पर भारत में कहीं भी सेवा करने का दायित्व होगा।

(घ) वह चिकित्सा अधिकारियों की चार्टर्ड ड्यूटी का पालन करेंगी।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.औ.सु.ब.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. प्रशासन-I भा.ले.वि.-गुप ख/884--दिनांक 01.10.2010 के का. आ.ग. सं. 526 में दी गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप श्री उदित भानु पटनायक, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 01.10.2010 (पूर्वाह्न) से अर्थात् उनके कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से एवं उनके वरीयता के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा अधिकारी (गुप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन बैंड (पी.बी.-2) रुपए 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- पर प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

यह पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम

निर्णय पर आधारित है। दिनांक 01.10.2010 के का.आ.ग. सं. 526 में विहित शर्तें एवं अनुबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

अरविंद दास  
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (वा.लि. एवं प्रा.ले.प.) का कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. (वा.लि. एवं प्रा.ले.प.) 2-7-Gr. B-Vol-I/874--मुख्यालय अनुभागीय कार्यालय आदेश सं. सी.ए-1/प्रशासन/145 दिनांक 22.10.2010 की अनुपालन में श्री आशिस कुमार महान्ती, स.ले.प.अ. (वा.) अपने पदोन्नति पे बैंड-2, रुपए 9,300--34,800/- ग्रेड पे रुपए 5,400/- के साथ वेतन मांग पर दिनांक 22.10.2010 (पूर्वाह्न) से लेखा परीक्षा अधिकारी (वा.) के पद पर कार्यालय महालेखाकार (वा.लि. एवं प्रा.ले.प.) ओड़िसा, भुवनेश्वर के कार्यालय में कार्य ग्रहण किया है।

यदि कोर्ट ट्रिब्यूनल के सब-ज्युडिस/कोर्ट में लिखित हो या अधिका में कोई दावा हो तो बिना पक्षपात में लेखा परीक्षा अधिकारी (वा.) पद पर पदोन्नति सीएटी/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के अधीन है।

ह./- अपठनीय  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

सं. ए-19011/328/2008 स्था. ए.पी.पी.--स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत होने पर श्री ए.एस.एस.एस. हरगोपाल, अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर से दिनांक 17.09.2010 अपराह्न से कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।

जी. आर. मूलचन्दानी  
सहायक प्रशासन अधिकारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(फिल्म प्रभाग)

मुंबई-400026, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

सं. ए-32014/06/2010-स्थापना-I--विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी, श्री राजेंद्र कुमार, संपादक, फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली को, पदोन्नति के आधार पर, मुख्य संपादक, फिल्म प्रभाग (वर्ग ख) राजपत्रित के पद पर, रुपए 9,300--34,800/- पीबी-2, ग्रेड पे रुपए 4,800/- के वेतनमान में, फिल्म प्रभाग मुख्यालय, मुंबई में दिनांक 21 सितम्बर, 2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

टी. टी. फर्नांडिस  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)  
कृते मुख्य निर्माता

दिनांक 20 अक्टूबर 2010

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

सं. सी-14015/1/2010-सतर्कता--सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) नियमावली 1965 के नियम 14 अंतर्गत, महानिदेशक, फिल्म प्रभाग, मुंबई ने, आदेश दिनांक 14.10.2010 संख्या सी-14015/1/2010-सतर्कता अनुसार, श्री सुंदर सिंह, निदेशक छायाकार फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली को, श्री शंकर एन. पटनाईक, छायाकार (सी.एफ.यू.) फिल्म प्रभाग, मुंबई के विरुद्ध जारी ज्ञापन दिनांक 13.10.2010 संख्या सी-14015/1/2010-सतर्कता अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए बतौर जाँच प्राधिकारी नामित किया है।

यह अधिसूचना विभागीय जाँच (साक्षी तथा अभियोजन पक्ष, 1972 की उपस्थिति संबंधी प्रवर्तन) अंतर्गत दर्शाये गए उद्देश्यों तथा उसमें शामिल प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।

टी. टी. फर्नानडिस  
वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकारी (प्रभारी)  
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (मु.)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

सं. ए-12025/2/2009-डी--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. ग्रेड पे के संशोधित वेतनमान (पे बैंड-2) में उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से प्रभावी, अस्थायी आधार पर औषध निरीक्षक के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति का स्थान
1.	श्री सिद्धार्थ सहाय मल्होत्रा	03.09.2010	सी.डी.एस.सी.ओ (मु.)
2.	श्री एस. जॉन गेरार्ड	08.09.2010	सी.डी.एस.सी.ओ (मु.)
3.	श्री वी. एस. प्रभाकर	20.09.2010	सी.डी.एस.सी.ओ (बैंगलूर)
4.	कु. जी. रेखा	23.09.2010	सी.डी.एस.सी.ओ (मु.)
5.	श्रीमती अंजु कुशाबाहा (नी मौय्या)	04.10.2010	सी.डी.एस.सी.ओ (मु.)

2. वे ज्वायनिंग की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे तथा नियुक्ति पत्र में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होंगे।

एस. एस. जोड  
उप निदेशक प्रशासन (औषधि)

मुंबई-400085, दिनांक 30 सितम्बर 2010

सं. पीडी/6(1)/2010-भर्ती-III/2010/8695--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती गोमती गुरुमुर्ती, वरिष्ठ लिपिक, आईजीकार, कल्पाक्कम, को दिनांक 27.08.2010 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में पीआरपी, कल्पाक्कम में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/6(5)/2009-भर्ती-III/2010/8696--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीकृष्णस्वामी रंगराजन, सहायक लेखाकार, एमआरपीयू, चेन्नई को दिनांक 01.09.2010 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में पीआरपी, कल्पाक्कम में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम  
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. 93/अधि./-स्था.-Iए/9274--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पद दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पद दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का पद	पद त्याग करने की तारीख	घटना
1.	डॉ. जे. वी. यल्ली	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	30.09.2010 (पूर्वा.)	सेवा अवधि में विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
2.	श्री एच. आर. म्हात्रे	वै.अ./ई	30.09.2010 (अप.)	अधिवर्षिता
3.	डॉ. क्युसान वेंकटेश लवांडे	वै.अ./जी	30.09.2010 (अप.)	अधिवर्षिता
4.	श्री सुनील मनोहरलाल अहुजा	वै.अ./एफ	30.09.2010 (अप.)	अधिवर्षिता

एन. डी. शर्मा  
नियंत्रक

## परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

सं. 20/3(9)/2009-सीसीएस/28--राष्ट्रपति, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई की प्रशासन अधिकारी-III, (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) श्रीमती जया इन्दुचुडन को 8.9.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सुविधाएं, कलपाक्कम में मुख्य प्रशासन अधिकारी (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चाक्को  
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 20/3(1)/2009-सीसीएस/29--राष्ट्रपति, इस विभाग के नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के सहायक कार्मिक अधिकारी, (वेतन बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्री उपाध्यायुता सेषगिरी राव को दिनांक 27.9.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में उप स्थापना अधिकारी (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. टी. नाक्को  
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 20/3(1)/2009-सीसीएस/30--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुभाग अधिकारी (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्री बी. दागेदरन को दिनांक 20.9.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में उप स्थापना अधिकारी (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. डी. - लो  
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 20/3(9)/2009-सीसीएस/31--राष्ट्रपति, इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई की प्रशासन अधिकारी-III, (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,600/-) श्री पी. रामकृष्णन को 16.9.2010 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपाक्कम में प्रशासन अधिकारी (वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चाक्को  
विशेष कार्य अधिकारी

मुंबई-400001, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

सं. 6(1060)/87-प्रशा./97-राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई के प्रशासन अधिकारी (पीबी-3

रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्री एस. श्रीराम को दिनांक 4 अक्टूबर 2010 की (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में अगले आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग शाखा सचिवालय, नई दिल्ली में विशेष कार्य अधिकारी (पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी  
अवर सचिव (प्रशासन)

## परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2010/3298--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर रु. 67,000--79,000/- (2% वार्षिक वेतन वृद्धि) एचएजी के वेतनमान में विशिष्ट वैज्ञानिक के पद पर काम करने के लिए 23 अगस्त, 2010 से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतनमान + ग्रेड वेतन
1.	श्री बीमल साहा	वैज्ञानिक अधिकारी(एच)	रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 10,000/-
2.	श्री जयन्त चौधरी	वैज्ञानिक अधिकारी(एच)	रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 10,000/-
	डॉ. डी. सरकार	वैज्ञानिक अधिकारी(एच)	रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड पे रु. 10,000/-

एन. वी. एस. वी. प्रसाद  
प्रशासनिक अधिकारी-III

कोलकाता--700064, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (जुलाई)/2010/3618--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,900/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (जी) के पद पर काम करने के लिए जुलाई 1, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
1.	श्री शंकर भट्टाचार्या	वैज्ञानिक अधिकारी(एफ)	रु. 37,400--67,000/- (ग्रेड पे-4) + रु. 8,700/-
2.	श्री तपस कुमार भोंमि	वैज्ञानिक अधिकारी(एफ)	रु. 37,400--67,000/- (ग्रेड पे-4) + रु. 8,700/-
3.	डॉ. मो. हरून रसी	वैज्ञानिक अधिकारी(एफ)	रु. 37,400--67,000/- (ग्रेड पे-4) + रु. 8,700/-

देबजीत गुप्ता  
प्रशासनिक अधिकारी-III



सं. बीईसीसी/पदोन्नति (जुलाई)/2010/3627--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड वेतन रु. 8,700/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एफ) के पद पर काम करने के लिए जुलाई 1, 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
1.	श्री रबिन्द्रानाथ डे	वैज्ञानिक अधिकारी(ई)	रु. 15,600--39,100/- (ग्रेड पे-3) + रु. 7,600/-
2.	श्री प्रोबल गंगोपाध्याय	वैज्ञानिक अधिकारी(ई)	रु. 15,600--39,100/- (ग्रेड पे-3) + रु. 7,600/-
3.	डॉ. सुरजीत पाल	वैज्ञानिक अधिकारी(ई)	रु. 15,600--39,100/- (ग्रेड पे-3) + रु. 7,600/-
4.	डॉ. निशीत कुमार दास	वैज्ञानिक अधिकारी(ई)	रु. 15,600--39,100/- (ग्रेड पे-3) + रु. 7,600/-
5.	श्री मलय कांती डे	वैज्ञानिक अधिकारी(ई)	रु. 15,600--39,100/- (ग्रेड पे-3) + रु. 7,600/-
6.	श्री चिन्मय नन्दी	वैज्ञानिक अधिकारी(ई)	रु. 15,600--39,100/- (ग्रेड पे-3) + रु. 7,600/-
7.	श्री अर्निदया राय	वैज्ञानिक अधिकारी(ई)	रु. 15,600--39,100/- (ग्रेड पे-3) + रु. 7,600/-

देबजीत गुप्ता  
प्रशासनिक अधिकारी-III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 15 अक्टूबर 2010

सं. आरआरकैट/2009-प्रशा./आर-805(जे)/1066--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को पदोन्नति पर वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3) रु. 15,600--39,100/- ग्रेड वेतन रु. 6,600/- से वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) के रूप में दिनांक 01.07.2009 से राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में नियुक्त करते हैं:--

श्री अतुल श्रीवास्तव

तथापि श्री अतुल श्रीवास्तव को वेतन नियतन का लाभ उनके द्वारा असाधारण अवकाश लेने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की दिनांक से प्रभावी होगा।

आर.पी. आचार्य  
मुख्य प्रशासनिक, अधिकारी

दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. आरआरकैट/2009-प्रशा./आर-805(जे)/1093--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति पर वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (पीबी-4 रु. 37,400--67,000/- ग्रेड वेतन रु. 8,700/- से वैज्ञानिक

अधिकारी/जी (पीबी-4 रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,900/-) के रूप में दिनांक 01.07.2010 से राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम
1.	डॉ. श्रीमती के. चड्ढा
2.	श्रीमती सुजाता जोशी
3.	श्री एम.पी. कामत
4.	श्री एम.के. सिंह
5.	श्री राम मोहन पांडे
6.	श्री पी.पी. देशपांडे
7.	डॉ. एस.एम. गुप्ता
8.	डॉ. मुकेश कुमार पी. जोशी
9.	श्री रमेश कुमार
10.	श्री अखिलेश जैन
11.	डॉ. एस.के. मजूमदार
12.	श्री एम.एल. गांधी
13.	डॉ. के. दिवाकर राव
14.	श्री विजेन्द्र प्रसाद

आर.पी. आचार्य  
मुख्य प्रशासनिक, अधिकारी

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400705, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. ब्रिट/9/18/129--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में कुमारी पल्लपोतु स्नेहा को दिनांक 01 सितम्बर 2010 के पूर्वाह्न से रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड तथा रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'सी' के पद पर, अगले आदेशों तक, अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

ए.के. कोहली  
मुख्य कार्यकारी

दिनांक 21 अक्टूबर 2010

शुद्धि-पत्र

सं. ब्रिट/9/18/130--इस एकक की दिनांक 13 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं. ब्रिट/9/18/63 के तहत डॉ. अशोक कुमार रतनलालजी

चांडक के अधिसूचित पदनाम को तकनीकी अधिकारी ग्रेड 'सी' के बजाय कृपया वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'सी' पढ़ते हुए संशोधित करें।

ए.के. कोहली  
मुख्य कार्यकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 14 सितम्बर, 2010

सं. पखनि-1/9/2004-भर्ती/खंड-IV/1908--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित व्यक्ति को परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में दर्शायी गयी तारीख से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/- ग्रेड वेतन पर वैज्ञानिक अधिकारी-सी के पद पर अस्थाई क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

नाम	विषय	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
श्री केदार नाथ यादव	भूविज्ञान	15.06.2010 (अपराह्न)

वि. विजय राम रेड्डी  
प्रशासनिक अधिकारी-III

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 अक्टूबर 2010

सं. ए-35018/1/2009-स्थापना-2--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधिकारियों को नागर विमानन महानिदेशालय में उड़ान प्रचालन निरीक्षक (बायुयान) के पद पर तदर्थ आधार पर (लघु अवधि संविदा के आधार पर) पे बैंड-4 37,400--67,000/- + ग्रेड पे 8,700/- रुपये के वेतनमान में उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से पुनः छः माह के लिए, या उपयुक्त उम्मीदवार की नियमित आधार पर नियुक्ति या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है :-

1. कैप्टन एच. एस. मल्होत्रा	09.07.2010
2. कैप्टन सी. एस. रंधावा	09.07.2010
3. कैप्टन पी. बी. आत्माराम	09.07.2010
4. कैप्टन राजीव यादव	09.07.2010
5. कैप्टन के. पी. बान्जी	09.07.2010
6. कैप्टन एन. शिवाराकृष्णन	09.07.2010
7. कैप्टन निशांक राय	09.07.2010
8. कैप्टन राजीव गुप्ता	12.07.2010
9. कैप्टन आर. एस. संधु	12.07.2010
10. कैप्टन दीपक दत्ता	27.07.2010

के. उन्नीकृष्णन  
उप निदेशक (प्रशासन)  
कृते नागर विमानन महानिदेशक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नेटाक्विला टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 अप्रैल 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली(सीजीओ)/सेक्शन-560/2010/00616--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेटाक्विला टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

महेश चन्द्र सक्सेना  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ट्रिनिटी इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 सितम्बर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली/सीजीओ/सेक्शन/560/2010/000190--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ट्रिनिटी इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मधुसुदन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 30 अगस्त 2010

सं. 560(5)/044071--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मधुसुदन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स स्वागतम् रेस्टोरेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

सं. 560(3)/एमसीए/आरओसी-दिल्ली/सीजीओ/सेक्शन/560/2010/00027--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स स्वागतम् रेस्टोरेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जेएनपी कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./10619/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेएनपी कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स च्वाईस जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./10781/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स च्वाईस जिमखाना प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मैनाप इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./10781/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैनाप इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गुजरात ड्राईंग डाईस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./5396/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गुजरात ड्राईंग डाईस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सम्राट पेपर्स एण्ड बोर्ड्स लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./4512/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सम्राट पेपर्स एण्ड बोर्ड्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स केरला मेलाच्युन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./12328/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रेप्स कम्प्यूटर्स लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./11879/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रेप्स कम्प्यूटर्स प्रिंटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पंकज ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

सं. आर.ओ.सी./11902/एस.टी.ए./2010---कम्पनी अधिनियम, 1956  
 धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी  
 जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पंकज ब्रिक्स  
 लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो  
 जस्टिस से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सनवेली होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./11232/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनवेली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

रू. १०००/-  
मैसर्स चियर्स एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद- ३८००१३, दिनांक २० अक्टूबर २०१०

सं. आर.ओ.सी./1041. 'एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से ती न मास के अवसान पर मैसर्स चियर्स फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का न म इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स भोजो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./9904/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पोजो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

बी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स यूनाइटेड स्टाच प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./9389/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स यूनाइटेड स्टार्च प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पैरामाउंट कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./8851/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956  
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पैरामाऊंट कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पैरामाऊंट लीजिंग एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./8320/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पैरामाऊंट लीजिंग एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पलक सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./18808/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पलक सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स हीराल लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./18512/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हीराल लैंड

डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अमूल्य ऑटो फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./18325/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अमूल्य ऑटो फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स प्राथीत डायस्टप्स एण्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./17617/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्राथीत डायस्टप्स एण्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स विकास मैनेजमेन्ट सूरत प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./17143/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विकास

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी./2593/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956  
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी  
जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एएमपीएस



इण्डिया स्विच गियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

(बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सदासुखई सेविंग्स एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./2294/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सदासुखई सेविंग्स एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स नवसुर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./1076/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नवसुर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स मेटाप्रैस (बोम्बे) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./8302/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेटाप्रैस

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री वल्लभ मैटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./7847/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री वल्लभ मैटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अम्बीरस एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./7057/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अम्बीरस एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स कादीवाला टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./7085/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कादीवाला

टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डायमंड परफोरेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./5854/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डायमंड परफोरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जिम कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./5699/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जिम कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अल्ट्रा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./5686/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अल्ट्रा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गायत्री एमे प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./5436/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गायत्री एमे प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स पुष्पक ट्रेड लिंक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./30169/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पुष्पक ट्रेड लिंक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गोकुलेश फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./30624/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोकुलेश

फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

एस. इंजीनियरिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रिद्धि फार्मा प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./28351/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिद्धि फार्मा प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स शारदा ड्रग्स कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./26075/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शारदा ड्रग्स कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रिनास टेक्सट्राईजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./27741/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिनास टेक्सट्राईजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स अक्षत शिपिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./37230/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अक्षत शिपिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर. एण्ड एस. इंजीनियरिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./27661/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर. एण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स साईबर गोलड इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./36674/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स साईबर गोल्ड इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स श्री अवाधूत इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./39446/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री अवाधूत इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स औजाट फूड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./18861/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स औजाट फूड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रिविरा केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./36622/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रिविरा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स सिद्धयोग फाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./41830/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिद्धयोग फाईबर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स न्यू आईडिया नेटवर्किंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./41793/एस.टी.ए./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स न्यू आईडिया नेटवर्किंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स वानगंगा प्लांटेशन लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31738/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वानगंगा

प्लांटेशन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स रेलीबल क्वेन्वर्स लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31723/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रेलीबल क्वेन्वर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स लब्धी फार्मा केम लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31688/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लब्धी फार्मा केम लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स जल तरंग मेरीयऊन लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31655/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जल तरंग मेरीयऊन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स एक्यूरेट रिमेडीज लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31418/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एक्यूरेट रिमेडीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गैप कारपोरेट सर्विसेस लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31428/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गैप कारपोरेट सर्विसेस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डायमंड फिनस्टोक लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31639/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर

मैसर्स डायमंड फिनस्टोक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

मैसर्स बाघेश्वरी पॉवर लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स डेसिल एग्रोटेक (आई) लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31535/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डेसिल एग्रोटेक (आई) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स टी. जे. आर. सन्स लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31518/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टी. जे. आर. सन्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स बाघेश्वरी पॉवर लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31493/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स टी. सी. एस. एन्वायरनमेन्टल सिस्टम्स लिमिटेड के  
विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31470/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टी. सी. एस. एन्वायरनमेन्टल सिस्टम्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स हिंगलाज लीज फाईनैसिंग लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31442/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हिंगलाज लीज फाईनैसिंग लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गायत्रीशक्ति पेपर एण्ड बोर्ड्स लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी./31355/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सं. आर.ओ.सी/31174/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

सं. आर.ओ.सी/31065/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना  
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुप्रीम





दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अविशा ऑरगेनिक्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स जीवनधारा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૧ અક્ટૂબર ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी/30979/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जीवनधारा सिक्वोरियोज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स ऐरो हेल्थकेयर लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૧ અક્ટૂબર ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी/30963/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ऐरो हेल्थकेयर लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स एक्यूरेट इण्डस्ट्रियल मशीनरीज़ लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૧ અક્ટૂબર ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी/30962/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एक्ज्यूटेड इण्डस्ट्रियल मशीनरीज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स अल्पाइन कैपिटल लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 21 અક્ટૂબર 2010

सं. आर.ओ.सो/30943/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अल्पाइन कैपिटल लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स आशियाना इनकॉर्पोरेटेड के विषय में

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 21 અક્તુબર 2010

सं. आर.ओ.सो/30935/एस.टी.ए./560/2010---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आशियाना इनकैप्ड लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स एडवांस इवेलिंग फाईनांस लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૧ અક્ટૂબર ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी/30919/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एडवॉस ड्वोर्लिंग फार्मानास लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स राजवंश फाईनांस लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૧ અક્તૂબર ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी/30915/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

सं. आर.ओ.सी/30512/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना  
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हॉयड्रोन

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

सं. आर.ओ.सी/30579/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेचर फार्मा कैम लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स सुतारिया प्रोजेक्ट कंसलटेंट्स लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/30583/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुतारिया प्रोजेक्ट कंसलटेंट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स गुजरात रियल एस्टेट प्रोमोटर्स लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/30609/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गुजरात रियल एस्टेट प्रोमोटर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स ग्राफिक रियल्टम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/30634/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ग्राफिक रियल्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स कंचन रिसॉसिज़ लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 22 અક્તુબર 2010

सं. आर.ओ.सी/30687/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कंचन रिसॉर्सिज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स भाग्योदय (गुजरात) फिनस्टॉक लिमिटेड के विषय में  
अहमदाबाद-380013, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/30689/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भाग्योदय (गुजरात) फिनस्ट्रेंस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स एक्सेल रिसोर्ट्स लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૨ અક્ટૂબર ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी/30724/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एक्सेल रिसोर्ट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधत्त कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स एडौनिस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૨૨ અક્ટુબર ૨૦૧૦

सं. आर.ओ.सी/30727/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एडोनिस् इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स धरनीधर एस्टेट एण्ड फिनस्टॉक लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/30735/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स धरनीधर एस्टेट एण्ड फिनस्टॉक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स पारुल स्पन एण्ड सिल्क मिल्स लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/30757/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पारुल स्पन एण्ड सिल्क मिल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स निमरॉड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/30799/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निमरॉड

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स डेल्टा इलैक्ट्रो-टेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद-380013, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/25481/एस.टी.ए./560/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेल्टा इलैक्ट्रो-टेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. एस. हजारे  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोलकाता, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी-पं.बं./आईपीसी/560(एस.एम.)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	096205	मैसर्स आलीशान विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
2.	096122	मैसर्स अमन व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
3.	096249	मैसर्स अगोमोनी मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	096291	मैसर्स आशापूर्ण डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	096124	मैसर्स देबनाथ व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
6.	096123	मैसर्स एकता व्यापार प्राईवेट लिमिटेड
7.	096440	मैसर्स गैटवे विनिमय प्राईवेट लिमिटेड

हरिहर साहू  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

सं. 560(5)एमसीए/जी.सी. शिलांग/8504--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	007650	मैसर्स राजा अली टी इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
2.	001416	मैसर्स मेघालय जूट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	003171	मैसर्स आईएसबी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
4.	004610	मैसर्स फौबस इन्टरप्राइसिज़ प्राईवेट लिमिटेड
5.	006791	मैसर्स पाटोरी एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
6.	002107	मैसर्स प्रौदेव कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	005889	मैसर्स मिल्लियर्ड मर्कैटायल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
8.	008110	मैसर्स राक्स बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	005885	मैसर्स जौरम कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
10.	007966	मैसर्स चारु पोलीफिन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	006647	मैसर्स यस्वी कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
12.	008241	मैसर्स दीमापुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
13.	008260	मैसर्स शिलांग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
14.	004442	मैसर्स कुशल ब्रदर्स बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	005034	मैसर्स एसपीए एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	007334	मैसर्स मा बाबा ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
17.	002641	मैसर्स डीलप्लास इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

डी. एन. चौधरी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753001, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. आर.ओ.सी/560(3)/4236--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किये गये तो रजिस्टर से काट दिये जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	15-000575	मैसर्स यूनिक रबर इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-000852	मैसर्स ओड़ीसा फिश सीज डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
3.	15-003934	मैसर्स रेस्टोरेशन एण्ड रिहैबिलिटेशन प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-004181	मैसर्स ओड़ीसा क्लब लिमिटेड
5.	15-004660	मैसर्स आरेन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-006650	मैसर्स फिज़ा प्लांटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-008919	मैसर्स स्पाई आई एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-009585	मैसर्स ईस्टर्न पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-009943	मैसर्स प्रीमोडियल आर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-010233	मैसर्स दलेमा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-011917	मैसर्स आदि प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहन्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स पारामाउण्ट ग्रैनाईट्स लिमिटेड के विषय में

चेन्नै-600006, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. 23310/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पारामाउण्ट ग्रैनाईट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स हेमा बेनीफिट फण्ड लिमिटेड के विषय में  
चेन्नै-600006, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. 26431/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हेमा बेनीफिट फण्ड लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स ब्राम्स फिनसोफ्ट कंसल्टिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नै 600006, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. 35264/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्राम्स फिनसोफ्ट कंसल्टिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स नीलकांत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में  
चेन्नै-600006, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. 36837/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नीलकांत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

कम्पनी अधिनियम 1956 और  
मैसर्स राम प्रोग्रामिंग आटोमेशन रिसर्च सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड के  
विषय में  
चेन्नै-600006, दिनांक 22 अक्टूबर 2010

सं. 37080/560(5)/2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स राम प्रोग्रामिंग आटोमेशन रिसर्च सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वी. सी. दवे  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह



## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 1st April 2010

No. A-32013/1/2010-Admn.II—The Competent Authority in Union Public Service Commission hereby appoints Smt. Raj Kishori John, Superintendent (DP) in the Commission's Office to the post of Assistant Controller (DP) (General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in PB-3, Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay of Rs. 5,400/- on regular promotion basis w.e.f. 01-04-2010 (First April Two Thousand Ten), until further orders.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 24th May 2010

No. A-35018/3/2009-Admn.II—In continuation of this office notification even number dated 27.11.2009, the period of ad hoc deputation of Shri Awadhesh Thakur, Steno Grade 'D', UPSC to the post of Staff Officer to Secretary, UPSC in the revised pay structure of PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade pay of Rs. 4,800/- (Gr. 'B', Gazetted) is extended for a further period of 3 months w.e.f. 19.5.2010 to 18.8.2010 (giving a technical break on 18.5.2010) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

No. A-35018/2/2009-Admn.II—In continuation of this Office Notification even number dated 27.11.2009, the period of ad hoc deputation of Shri Rajesh Joshi, Steno Grade 'C', UPSC to the post of Staff Officer to Chairman, UPSC in the revised pay structure of PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade pay of Rs. 4,800/- p.m. (Gr. 'B', Gazetted) is extended for a further period of 3 months w.e.f. 19.5.2010 to 18.8.2010 (giving a technical break on 18.5.2010) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 30th June 2010

No. A-38013/17/2009-Admn.III—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. I. C. Nangia, Section Officer of the CSS Cadre of Union Public Service Commission stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of the 30th June 2010.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 1st July 2010

## CORRIGENDUM

No. A-32014/1/2005-Admn.III—In partial modification to this office notification of even number dated 18th June 2010,

the date of appointment of Sh. Rajendran Nair M. B. may be read as 17.6.2010 (F.N.) in place of 17.6.2010 (A.N.).

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 14th July 2010

No. A-32014/1/2009-Admn.III—The President is pleased to appoint the following Assistants of the CSS cadre of Union Public Service Commission as Section Officers on ad hoc basis with effect from 12.7.2010 to 31.12.2010 or until further orders whichever is earlier :—

S. No.	Name	Select List Year
	(S/Shri)	
1.	Anupam Pandey	1995
2.	J. C. Katoch	1995
3.	J. P. Sah (ST)	1995
4.	Smt. Sushila Ekka (ST)	1995
5.	Praneshwar Kumar	1995
6.	S. P. Bist	1996
7.	Smt. Jagjit Kaur	1996
8.	R. P. Sharma	1996
9.	Aditya Narayan	1996
10.	Smt. Shanti Lata Toppo (ST)	1996
11.	Sudhir Kumar	1996
12.	A. S. Shokeen	1996
13.	Ashok Kumar Kaundal	1996
14.	Arun Kumar-I (SC)	1997
15.	Hari Ram Meena (ST)	1998
16.	Smt. Pushpa Rani (ST)	1999

2. The promotion of above Assistants as Section Officers on ad hoc basis will be subject to the following conditions:—

- (i) The period of ad hoc promotion would be up to 31.12.2010 till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier.
- (ii) Ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade of CSS.
- (iii) Ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers' grade are available either through Seniority quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistants' Grade on availability or such regular officers from the date the regular Section Officers join duty in their respective cadre units allotted to them by DoP&T.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 22nd July 2010

No. A-32014/1/2009-Admn.III—The President is pleased to extend the period of ad hoc promotion appoint the following Assistants of the CSS cadre of Union Public Service Commission as Section Officers on ad hoc basis with effect from 1.7.2010 to 31.12.2010 or until further orders, whichever is earlier :—

S. No.	Name	Select List Year
	(S/Shri)	
1.	A. K. Sharma	1991
2.	Arun Kumar-II	1992
3.	S. K. Puri	1992
4.	B. S. Chhonker	1992
5.	Y. P. Kamra	1992
6.	Smt. Rani Kaushik	1992
7.	Smt. Shobha Sharma	1992
8.	Smt. Savitri Thukral	1992
9.	G. S. Azad	1992
10.	Bijender Singh	1993
11.	H. S. Dalal	1993
12.	S. L. Ashodhiya	1993
13.	Md. Nadeem	1993
14.	Smt. Santosh Sharma	1993
15.	Smt. Veena Madan	1993
16.	S. K. Chadha	1993
17.	Smt. D. K. Kang	1993
18.	Gulshan Chand	1993
19.	P. K. Khanna	1993
20.	Jagdish Chander Gaba	1994
21.	B. S. Pathania	1994
22.	S. C. Kalia	1994
23.	Subhash Chander	1995
24.	Dinesh Sharma	1995
25.	S. C. S. Rawat	1995
26.	Ramesh Singh	1995
27.	Kalpana Virat	1995
28.	Tintus Soreng	1995

2. The promotion of above Assistants as Section Officers on ad hoc basis will be subject to the following conditions:—

- The period of ad hoc promotion would be up to 31.12.2010 till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier.
- Ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade of CSS.
- Ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers' grade are available either through Seniority quota or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officers from the date the

regular Section Officers join duty in their respective cadre units allotted to them by DoP&T.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 30th July 2010

No. A-38013/1/2010-Admn.III—Consequent upon attaining the age of superannuation, Smt. Gurdeep Kaur, Section Officer of the CSS Cadre of Union Public Service Commission stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of the 31st July 2010.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 6th October 2010

No. A-32014/1(ii)/2009-Admn.III(Pt.)—In pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 6/5/2009-CS.I (S) dated 27.8.2010 regarding rotational transfers/posting of Section Officers of CSS, Sh. R. K. Dagar, Section Officer of the CSS Cadre of Union Public Service Commission stands relieved of his duties in the Commission's office with effect from the afternoon of 6th October, 2010 with direction to report to the Ministry of Commerce, immediately.

2. Sh. R. K. Dagar is clear from Vigilance Angle.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

No. A-32014/1(ii)/2009-Admn.III(Pt.)—On being relieved from Ministry of Urban Development vide their Office Order No. A-32014/5/2009-Adm.I dated 29.09.2010 in pursuance of Department of Personnel & Training's OM No. 6/5/2009-CS.I (S) dated 27.8.2010; Smt. Sadhna Baul, Section Officer of the CSS Cadre is taken on the rolls of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 1st October, 2010.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 7th October 2010

No. A-60011/13/2009-RTI Cell (Admn.)—In terms of Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Union Public Service Commission are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of the specific subject matters mentioned against their names :—

S. No.	Name of the CPIO	Subject matters	Name of Appellate Authority
1	2	3	4
1.	Sh. N. Mukherjee US (SPC) Tele No. 23387296	All RTI matters pertaining to R-I, Scrutiny Section, SPC-I, SPC-II, Advisor Cell, P&D Bank and Programme Unit.	Sh. Vinai Kumar Kanaujia, JS(R-I) Tele No. 23385374

1	2	3	4
2.	Shri N. K. Sharma, DS (R-vi) Tele No. 23381552 Fax No. 23388294	All RTI matters pertaining to R-II, R-III, R-V Scrutiny Sections, R(C&P) and RTI Cell (Rectt.)	Sh. Kamal Bhagat, JS(R-II) Tele No. 23385627 Fax No. 23388294
3.	Shri S. Kannappan, DS (R-II) Tele No. 23385269 Fax No. 23388294	All RTI matters pertaining to R-IV, R-VI, Scrutiny Sections, and RA(IFC)	Sh. Kamal Bhagat, JS(R-II) Tele No. 23385627 Fax No. 23388294

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

New Delhi, the 20th September 2010

No. A-19014/24/2010-Admn.I—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on ad hoc basis and on his nomination to the cadre of UPSC vide Department of Personnel & Training/Order No. 5/3/2010-CS-I(U) dated 3rd September, 2010, Shri Vinod Kumar (DoB : 19-09-1970) (CSL No. 6777), a regular Section Officer of CSS cadre of Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce has been appointed as Under Secretary in UPSC w.e.f. 17th September, 2010. His appointment as Under Secretary (ad hoc) shall be upto 31-05-2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion of the aforesaid officer is subject to the following conditions :—

- (i) The same shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The officer has to undergo mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for CSS within a period of 06 months.
- (iv) The ad hoc promotion of the officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma V/s UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri PS Bhandari v/s UoI & others pending before the CAT, New Delhi.

A. K. AHLUWALIA  
Sr. Administrative Officer

The 6th October 2010

No. A-19014/26/2010-Admn.I—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on ad hoc basis and on his nomination to the cadre of UPSC vide Department of Personnel & Training/Order No. 5/3/2010-CS-I(U) dated 3rd September, 2010, Shri Tharvinder Singh (DoB : 07-07-1965) (CSL No. 6674), a regular Section Officer of CSS

cadre of Ministry of Environment & Forests has been appointed as Under Secretary in UPSC w.e.f. 1st October, 2010. His appointment as Under Secretary (ad hoc) shall be upto 31-05-2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion of the aforesaid officer is subject to the following conditions :—

- (i) The same shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The officer has to undergo mandatory Level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for CSS within a period of 06 months, if not already undergone.
- (iv) The ad hoc promotion of the officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma V/s UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri PS Bhandari v/s UOI & others pending before the CAT, New Delhi.

A. K. AHLUWALIA  
Sr. Administrative Officer

#### CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 20th October 2010

No. DP/PERS. I/2008/66/3/40/2003—Services of Shri Bhanu Bhaskar, IPS (UP:1996), Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation, have been placed at the disposal of Government of Uttar Pradesh with effect from the afternoon of 14.10.2010, on completion of his maximum tenure of 7 years at Centre.

M. SACHDEV  
Admn. Officer (Pers.)

#### CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 15th October 2010

No. 2/35/10-Admn/105967—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Hari Kumar, CSS(77), as Additional Secretary (JS Level) in the Commission in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/-, with effect from the forenoon of 04.10.2010 for a period upto 31.1.2012, i.e. the date of his superannuation, or till further orders, whichever is earlier.

SURJIT SINGH  
Director (Admn.)  
for Central Vigilance Commissioner

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 19th October 2010

No. P. III-2/2010-Min—Consequent on acceptance of his Voluntary retirement w.e.f. 01-09.2010 (FN) from the post of Administrative Officer, Shri Laxman Das (IRLA-7656) had

handed over the charge of Administrative Office in the Office of Director/IG, ISA, CRPF, Mount Abu from the same date.

R. N. MISRA  
DIGP (Organisation)

New Delhi-110003, the 8th October 2010

No. O. II.2572/89-Pers (MOs)—Consequent on acceptance of his Voluntary retirement from service by the Competent Authority, Dr. Satish Ghate, CMO (SG) (IRLA-2817), CHCRPF, Bilaspur has handed over charge on 01.08.2010 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force from 01.08.2010 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN  
DIGP (Pers)

No. O. II.2573/89-Pers. (MOs)—Consequent on acceptance of his Voluntary retirement from service by the Competent Authority, Dr. (Mrs.) Shubhangi Ghate, CMO (SG) (IRLA-2818), CHCRPF, Bilaspur has handed over charge on 01.08.2010 (FN). Accordingly, her name stands deleted from the rolls of the Force from 01.08.2010 (FN).

T. CHANDRASEKHARAN  
DIGP (Pers)

DIRECTORATE OF COORDINATION  
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-110003, the 15th October 2010

No. A-17011/07(N-38)/2010-Admn. I—Smt. Naresh Dhooria, Private Secretary of CSSS Cadre of this Directorate has retired from Government Service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 30.09.2010.

P. K. SINGHAL  
Director

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, 2nd October 2010

CORRIGENDUM

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers.-I/870—Reference this Directorate Notification issued vide Letter No. E-16015(2)/32/2009/Pers.-I/174, dated 29.09.2010 regarding regular promotion to the rank of Commandant.

The following amendment is made in respect of Shri A. Madhu, Commandant, at Sl. No. 13 of the Notification referred above.

For:

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Deputy Inspector General on regular basis
13.	Shri A. Madhu	PTPS Patratu	14.10.2006 Notional Date 26.03.2010(FN) Actual Promotion

Read:

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Commandant on regular basis
13.	Shri A. Madhu	PTPS Patratu	14.10.2006 Notional Date 26.04.2010(FN) Actual Promotion

Other contents of the Notification referred above remain unchanged.

Sd/- Illegible  
Director General/CISF

The 20th October 2010

No. E-16016(5)/5/2003/Pers.I/Pt-II/212—Pursuant to the judgement dated 07.03.2008 passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP Civil No. CC-3338/2008 filed by the CISF against the order dated 26.07.2007 passed by High Court of Chhatisgarh at Bilaspur in WP No. 1454/2004, the MHA vide their Order No. E-16016(5)/5/2003/MHA/CISF/Pers.I/Pt.II/958 dated 6th Oct' 2009 have regularized the ad hoc appointment of Dr. (Mrs) Durga Bhavani Rajnala to the post of Medical Officer in CISF retrospectively with effect from 29.10.1994, i.e. the date of her joining in CISF on ad hoc basis, on the following terms and conditions:-

- She will be combatized stream in combined medical cadre of ITBP and CISF, since, CISF does not have its own medical cadre and shares joint medical cadre with the ITBP which is the Cadre Controlling Authority and provides Medical Officers to CISF on duty basis in combatized stream,
- The service matters of Dr. (Mrs) Durga Bhavani Rajnala, Medical Officer viz., promotion, seniority etc., would be regulated by the ITBP, being Cadre Controlling Authority, under the provision contained in the Recruitment Rules of Medical Officers.
- She is liable to serve anywhere in India.
- She is to abide by the charter of duties of Medical Officers.

Sd/- Illegible  
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(A&E), ORISSA

Bhubaneswar-1, the 25th October 2010

No. Admn-I-IAD-Gr. 'B'-884—Consequent on his acceptance of offer of promotion vide this office OOC No. 526

dated 01.10.2010, the Pr. Accountant General, Orissa has been pleased to allow Sri Udit Bhanu Patnaik, Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer (Gr. 'B'-Gazetted) in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from 01.10.2010(FN) i.e. the date of taking over charge without prejudice to the claim of his seniors.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any. Other terms and conditions of OOC. 526 dt. 01.10.2010 shall remain unchanged.

ARABINDA DAS  
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(COMMERCIAL, WORKS & RECEIPT AUDIT), ORISSA

Bhubaneswar, the 22nd October 2010

No. Admn. (CW&RA)/2-7Gr "B"-Vol-I/874—In pursuance of Headquarter's Office Sectional Office Order No. CA-I/Admn/145 dt. 19.10.2010, Sri Ashish Kumar Mohanty, Asst. Audit Officer (Coml.) on his promotion has assumed charge as Audit Officer (Coml.) in the Pay Band-2, in the scale of Rs. 9,300—34,800 with grade pay of Rs. 5,400/- w.e.f. 20.10.2010 FN in the Commercial Audit Wing of the O/o the Accountant General (CW&RA), Orissa, Bhubaneswar.

The promotion to the cadre of Audit Officer (Coml.) is subject to the final decision of Hon'ble High Court/Supreme Court/CAT etc. in the case if any Sub-Judice in Tribunals/Courts and without prejudice to the claim of his seniors.

Sd/- Illegible  
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF MINES  
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 14th October 2010

No. A-19011/328/2010-Estt.—APP "On the acceptance of Voluntary retirement Shri A.S.S.S. Hargopal, Ore Dressing Officer", Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the afternoon of 17.09.2010.

G. R. MULCHANDANI  
Asstt. Admin. Officer

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING  
(FILMS DIVISION)

Mumbai-400026, the 14th October 2010

No. A-32014/06/2010-Estt.-I—On recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Competent Authority has promoted Shri Rajendra Kumar, Editor, Films Division, New Delhi to the post of Chief Editor (Group 'B') Gazetted, in

the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- in pay Band-2 with Grade pay of Rs. 4,800/-, in the Films Division, Main Office, Mumbai with effect from the forenoon of 21st September, 2010 until further orders.

T. T. FERNANDES  
Sr. Admin. Officer (In-Charge)  
For Director General

The 20th October 2010

No. C-14015/01/2010-Vig—In accordance with rule 14 of CCS(CCA) Rules, 1965 the Director General, Films Division, Mumbai has constituted a Departmental Enquiry Committee by nominating Shri Sunder Singh, Director Cameraman, Films Division, New Delhi as the Inquiring Authority vide Order No. C-14015/01/2010-Vig, dated 14.10.2010 in the disciplinary proceedings initiated against Shri Shankar N. Patnaik, Cameraman (CFU), Films Division, Mumbai vide Memorandum No. C-14015/01/2010-Vig, dated 13.10.2010.

The Notification is being published in accordance with the provisions contained in the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Prosecution, 1972) for the purposes mentioned therein.

T. T. FERNANDES  
Sr. Admin. Officer (In-Charge)  
For Director General

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH  
SERVICES CDSCO (HQ)

New Delhi, the 19th October 2010

No. A-12025/02/2009-D—On the recommendations of UPSC the Director General of Health Services is pleased to appoint the following to the post of Drugs Inspector in the scale of pay of PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- on temporary basis w.e.f. the dates indicated against their names:-

Sl. No.	Name	Date of appointment	Place of posting
1.	Sh. Sidharth Sahai Malhotra	03.09.2010	CDSCO, HQ
2.	Sh. S. John Gerard	08.09.2010	CDSCO, HQ
3.	Sh. V. S. Prabhakar	20.09.2010	CDSCO (Bangalore)
4.	Ms. G. Rekha	23.09.2010	CDSCO, HQ
5.	Mrs. Anju Kushwaha (Nee Maurya)	04.10.2010	CDSCO, HQ

They will be on probation for a period of two years from the date of joining and will be governed by the terms and conditions indicated in the offer of appointment.

M. S. ZOU  
Dy. Director Admn. (Drugs)

**BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE**

Mumbai-400085, the 30th September 2010

Ref: PD/6(1)/2010-R-III/2010/8695—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Gomathy Gurumoorthy, Sr. Clerk, IGCAR, Kalpakkam to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800+Grade Pay Rs. 4,800/- in PRP, Kalpakkam with effect from the forenoon of 27.08.2010 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

Ref: PD/6(5)/2009-R-III/2010/8696—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Krishnaswamy Rangarajan, Asstt. Accountant, MRPU, Chennai to officiate as Asstt. Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800+Grade Pay Rs. 4,800/- in PRP, Kalpakkam with effect from the forenoon of 01.09.2010 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM  
Dy. Establishment Officer

Mumbai-400085, the 21st October 2010

No. 2402/93/Noti/Est.IA/9274—The officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof:—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
1.	Dr. J. V. Yakhmi	Outstanding Scientist	30.09.2010(FN)	Retirement After Extn. of Service
2.	Shri H. R. Mhatre	SO/E	30.09.2010(AN)	Superannuation
3.	Dr. Quissan Venkatesh Lawande	SO/G	30.09.2010(AN)	Superannuation
4.	Shri Sunil Manoharlal Ahuja	SO/F	30.09.2010(AN)	Superannuation

N. D. SHARMA  
Controller

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**

Mumbai-400001, the 14th October 2010

No. 20/3(9)/2009-CCS/28—The President is pleased to appoint Smt. Jaya Induchoodan, Administrative Officer-III (PB-3 Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 6,600/-), of Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Chief Administrative Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 7,600/-) in Bhabha Atomic Research Centre Facilities, Kalpakkam w.e.f. 08.09.2010(FN) until further orders.

C. D. CHACKO  
Officer-on-Special Duty

No. 20/3(1)/2009-CCS/29—The President is pleased to appoint Shri Upadhyayula Seshagiri Rao, Assistant Personnel Officer (PB-2 Rs. 9,300—34,800+Grade Pay Rs. 5,400/-), Nuclear Fuel Complex, Hyderabad of this Department as Deputy Establishment Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 6,600/-) in Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai w.e.f. 27.09.2010(FN) until further orders.

C. D. CHACKO  
Officer-on-Special Duty

No. 20/3(1)/2009-CCS/30—The President is pleased to appoint Shri B. Damodaran, Section Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 5,400), Department of Atomic Energy, Mumbai as Deputy Establishment Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 6,600/-) in Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai w.e.f. 20.09.2010(FN) until further orders.

C. D. CHACKO  
Officer-on-Special Duty

No. 20/3(9)/2009-CCS/31—The President is pleased to appoint Shri P. Ramakrishnan, Administrative Officer-III (PB-3 Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 6,600/-), of Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Chief Administrative Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 7,600) in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam w.e.f. 16.09.2010(FN) until further orders.

C. D. CHACKO  
Officer-on-Special Duty

Mumbai-400001, the 15th October 2010

No. 6(1060)/87-Adm./9760—The President is pleased to appoint Shri S. Sriram, Section Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay Rs. 5,400/-), Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai as Officer-on-Special Duty in the (PB-3 Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 6,600/-) in the Department of Atomic Energy Branch Secretariat, New Delhi with effect from the forenoon of 4th October, 2010 until further orders.

V. GOVINDANKUTTY  
Under Secretary (Admn.)

**VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE**

Kolkata-700064, the 11th October 2010

No. VECC/Prom (Aug)/2010/3298—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Outstanding Scientist in HAG Scale Rs. 67,000—79,000/- (annual increment @ 3%) in the same Centre in an officiating capacity with effect from August 23, 2010 until further orders:—

Sl. No.	Name	Present post	Scale of pay (PB+GP)
1.	Shri Subimal Saha	Scientific Officer (H)	Rs. 37,400—67,000+GP Rs. 10,000/-
2.	Shri Jayanta Chaudhuri	Scientific Officer (H)	Rs. 37,400—67,000+GP Rs. 10,000/-
3.	Dr. D. Sarkar	Scientific Officer (H)	Rs. 37,400—67,000+GP Rs. 10,000/-

NVSV PRASAD  
Admin. Officer-III

Kolkata-700064, the 19th October 2010

No. VECC/Prom (July)/2010/3618—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (G) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000 (PB-4)+Grade Pay of Rs. 8,900/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2010 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Present post	PB+GP
1.	Shri Sankar Bhattacharya	Scientific Officer (F)	Rs. 37,400—67,000 (PB-4) Rs. 8,700/-
2.	Shri Tapas Kumar Bhaumik	Scientific Officer (F)	Rs. 37,400—67,000 (PB-4) Rs. 8,700/-
3.	Dr. Md. Haroon Rashid	Scientific Officer (F)	Rs. 37,400—67,000 (PB-4) Rs. 8,700/-

DEBJIT GUPTA  
Admin. Officer-III

No. VECC/Prom (July)/2010/3627—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (F) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000 (PB-4)+Grade Pay of Rs. 8,700/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2010 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Present post	PB+GP
1	2	3	4
1.	Shri Rabindranath De	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100 (PB-3) Rs. 7,600
2.	Shri Probal Gangopadhyay	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100 (PB-3) Rs. 7,600
3.	Dr. Surajit Pal	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100 (PB-3) Rs. 7,600
4.	Dr. Nisith Kumar Das	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100 (PB-3) Rs. 7,600

1	2	3	4
5.	Shri Malay Kanti Dey	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100 (PB-3) Rs. 7,600/-
6.	Shri Chinmay Nandi	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100 (PB-3) Rs. 7,600/-
7.	Shri Anindya Roy	Scientific Officer (E)	Rs. 15,600—39,100 (PB-3) Rs. 7,600/-

DEBJIT GUPTA  
Admin. Officer-III

### RAJARAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore-452013, the 15th October 2010

No. RRCAT/Admn-2009/R-805(J)/1066—The President is pleased to appoint the following Officer on promotion of the following Scientific Officer (D) (PB-3, Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 6,600/-) to the Grade of Scientific Officer (E) (PB-3, Rs. 15,600—39,100+Grade Pay Rs. 7,600/-) w.e.f. 01.07.2009 in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore.

Sr. No. Name

1. Shri Atul Srivastava

However the benefit of fixation of pay of Shri Atul Srivastava would be effective from the date of assumption of charge of the post of SO/E after availing EOL.

R. P. ACHARYA  
Chief Admn. Officer

The 25th October 2010

No. RRCAT/Admn-2009/R-805(J)/1092—The President is pleased to appoint the following Officers/Engineers (F)(PB-4, Rs. 37,400—67,000+Grade Pay Rs. 8,700/-) to the Grade of Scientific Officer/Engineer (G)(PB-4, Rs. 37,400—67,000+Grade Pay Rs. 8,900) w.e.f. 01.07.2010 in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore :—

Sr. No. CC No Name

1.	674	Dr. Smt. K. Chaddah
2.	254	Smt. Sujata Joshi
3.	250	Shri M. P. Kamat
4.	1160	Shri M. K. Singh
5.	243	Shri Ram Mohan Pandey
6.	751	Shri P. P. Deshpande
7.	1364	Dr. S. M. Gupta
8.	324	Dr. Mukesh Kumar P. Joshi
9.	1115	Shri Ramesh Kumar
10.	901	Shri Akhilesh Jain
11.	749	Dr. S. K. Majumder
12.	807	Shri M. L. Gandhi
13.	1114	Dr. K. Diwakar Rao
14.	754	Shri Vijendra Prasad

R. P. ACHARYA  
Chief Admn. Officer

## BOARD OF RADIATION &amp; ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400705, the 20th October 2010

Ref: Brit/9/18/129—The President is pleased to appoint Kum. Paliapotu Sneha as Scientific Officer Grade 'C' in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 5,400 in the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of September 01, 2010 until further orders.

A. K. KOHLI  
Chief Executive

The 21st October 2010

## CORRIGENDUM

No. Brit/9/18/130—The designation notified vide this Unit's Notification No. Brit/9/18/63 dated April 13, 2010 in respect of Dr. Ashokkumar Ratanlalji Chandak may please be amended to read as Scientific Officer (C) instead of Technical Officer (C).

A. K. KOHLI  
Chief Executive

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR  
EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500629, the 14th September 2010

No. AMD-1/9/2004-Rectt.(Vol.IV)/1908—The President is pleased to appoint the undermentioned individual as Scientific Officer-C in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, in a temporary capacity in the Pay Band PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- Grade Pay with effect from the date and discipline mentioned below until further orders :—

Name	Discipline	Date of Assumption of Charge
Shri Kedar Nath Yadav	Geology	15.06.2010 (A.N.)
V. VIJAYA RAMI REDDY Administrative Officer-III		

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL  
AVIATION

New Delhi-110003, the 18th October 2010

No. A-35018/1/2009-E.II.—The President is pleased to extend the period of adhoc appointment on deputation basis of the following Flight Operations Inspectors (Aeroplane) in the Pay Scale of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + GP 8,700/- for a further period of six months, beyond the dates mentioned

against each or until suitable candidates are appointed on regular basis or until further orders, whichever is the earliest :—

S.No.	Name of Officer	Date
1.	Capt. H. S. Malhotra	09.07.2010
2.	Capt. C. S. Randhawa	09.07.2010
3.	Capt. P. V. Atmaram	09.07.2010
4.	Capt. Rajiv Yadav	09.07.2010
5.	Capt. K. P. Banaji	09.07.2010
6.	Capt. N. Sivaramakrishnan	09.07.2010
7.	Capt. Nishank Roy	09.07.2010
8.	Capt. Rajeev Gupta	12.07.2010
9.	Capt. R. S. Sandhu	12.07.2010
10.	Capt. Deepak Dutta	27.07.2010

K. UNNIKRISHNAN  
Dy. Dir. of Admn.

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Netaquila Technologies Private Limited

New Delhi-110019, the 27th April 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00616—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Netaquila Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

MAHESH CHANDRA SAXENA  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trinity Elastomers Private Limited

New Delhi-110019, the 29th September 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00190—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trinity Elastomers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Madhusudan Credits Private Limited

New Delhi-110019, the 30th August 2010

No. 560(5)/044071—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Madhusudan Credits Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Swagatam Restaurants Private Limited

New Delhi-110019, the 4th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Delhi (CGO)/sec 560/2010/00027—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swagatam Restaurants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. J. N. P. Constructions Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00102/15012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. J. N. P. Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Choice Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00121/15015—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of

M/s. Choice Gymkhana Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mainnap Investments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00122/15018—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mainnap Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gujarat Drawing Dies Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00123/15021—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gujarat Drawing Dies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samrat Papers and Boards Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00124/15024—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Samrat Papers and Boards Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kerala Melatuine Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00126/15027—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Kerala Melatuine Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raps Computers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00127/15030—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Raps Computers Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pankaj Bricks Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00128/15033—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Pankaj Bricks Private Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunvalley Hotel Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00129/15036—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Sunvalley Hotel Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cheers Food Products Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00130/15039—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Cheers Food Products Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pojo Investment Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00131/15042—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Pojo Investment Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. United Starch Products Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00132/15045—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. United Starch Products Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paramount Computer Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00133/15048—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Paramount Computer Services Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paramount Leasing and Co. Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00134/15051—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Paramount Leasing and Co. Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Palak Securities Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00135/15054—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Palak Securities Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hiral and Developer Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00136/15057—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Hiral and Developer Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amulya Auto Finance Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00137/15060—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Amulya Auto Finance Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prathit Dyestuffs and Software Applications Private  
Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00138/15063—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Prathit Dyestuffs and Software Applications Private  
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck  
off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vikas Management Surat Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00139/15066—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Vikas Management Surat Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Balraj Financial Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00140/15069—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Balraj Financial Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Apuka Associates (Marketing) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00141/15072—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Apuka Associates (Marketing) Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rollwell Bearings Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00143/15075—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Rollwell Bearings Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Godson Foods and Packaging Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00144/15078—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Godson Foods and Packaging Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Meghana Gases Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00146/15081—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Meghana Gases Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aadesh Properties Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00150/15084—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Aadesh Properties Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bandhan Basera Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00152/15087—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Bandhan Basera Services Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sainath Finstock Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00154/15090—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Sainath Finstock Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ONGC Ex-Employees Allied Services Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00156/15093—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. ONGC Ex-Employees Allied Services Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Deeple Consultancy Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00158/15096—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Deeple Consultancy Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parnved Trade-Link Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00160/15120—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Parnved Trade-Link Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajshree Tour and Travels (Gujarat) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00163/15123—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Rajshree Tour and Travels (Gujarat) Private Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aarnet Marketing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00165/15126—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Aarnet Marketing Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dharnidhar Resorts Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00166/15129—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Dharnidhar Resorts Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trambavati Gymkhana Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00168/15132—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Trambavati Gymkhana Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maccore Infotech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00172/15135—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Maccore Infotech Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Maruti Dhanadal Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00174/15138—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Maruti Dhanadal Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Crosrol Machinery Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00177/15141—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Crosrol Machinery Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amps India Switch Gears Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00180/15144—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Amps India Switch Gears Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sadasukhai Savings and Trading Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00182/15147—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Sadasukhai Savings and Trading Private Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Navsur Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00183/15165—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Navsur Private Limited unless cause is shown to the  
contrary, will be struck off the register and the said company  
will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Metapress (Bombay) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00185/15168—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Metapress (Bombay) Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Vallab Metal Works Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00188/15171—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Shree Vallab Metal Works Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ambirsh Estates Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00190/15174—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Ambirsh Estates Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kadiwala Textile Industries Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00194/15177—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Kadiwala Textile Industries Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Diamond Perforation Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00198/15180—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Diamond Perforation Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jim Construction Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00200/15183—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Jim Construction Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alata Investments Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00202/15186—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Alata Investments Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gayatri Emey Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00204/15189—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gayatri Emey Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pushpak Trade Link Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00207/15192—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Pushpak Trade Link Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gokulesh Finlease Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00209/15195—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gokulesh Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Riddhi Pharma Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00212/15198—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Riddhi Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Renas Texturisers Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00214/15201—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Renas Texturisers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. and S. Engineering India Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00216/15204—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. R. and S. Engineering India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sharda Drugs Consultants Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/00219/15207—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sharda Drugs Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Akshat Shipping Agency Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00221/15210—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Akshat Shipping Agency Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cyber Gold Infotech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00222/15213—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Cyber Gold Infotech Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Avadhoot Infotech Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00223/15216—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Shree Avadhoot Infotech Private Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ozat Food Processing Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00224/15219—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Ozat Food Processing Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Riviera Chemicals Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00225/15222—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Riviera Chemicals Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Siddhayog Fibres Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00226/15225—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Siddhayog Fibres Private Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. New Idea Networking Private Limited

Ahmedabad-380013, the 20th October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00228/15228—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. New Idea Networking Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vanganga Plantations Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00025/15231—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Vanganga Plantations Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Reliable Quenchers Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00029/15234—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Reliable Quenchers Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Labdhi Pharma Chem Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00031/15237—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Labdhi Pharma Chem Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jal Tarang Merytown Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00032/15240—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Jal Tarang Merytown Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Accurate Remedies Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00033/15243—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Accurate Remedies Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gap Corporate Services Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00034/15246—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Gap Corporate Services Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Diamond Finstock Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00035/15249—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Diamond Finstock Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dacil Agrotech(I) Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00038/15252—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Dacil Agrotech(I) Limited unless cause is shown to the  
contrary, will be struck off the register and the said company  
will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. T. J. R. Sons Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00039/15255—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. T. J. R. Sons Limited unless cause is shown to the  
contrary, will be struck off the register and the said company  
will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vagheshwari Power Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00040/15258—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Vagheshwari Power Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. TCS Environmental Systems Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00042/15261—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. TCS Environmental Systems Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and the  
said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hinglaj Lease Finance Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00044/15264—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Hinglaj Lease Finance Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gayatrishakti Paper and Boards Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00049/15267—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Gayatrishakti Paper and Boards Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gujarat Ion Infosys Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. u/s 560(3) MCA/RoC-Ahmedabad/sec 560/2010/  
00050/15270—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name of  
M/s. Gujarat Ion Infosys Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pat-Parth Merchandise Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00051/  
15273—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Pat-Parth Merchandise Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashwmegh Travels Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00052/  
15276—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Ashwmegh Travels Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pat-Parth Builders Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00053/  
15279—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Pat-Parth Builders Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sahastrakoot Marketing Services Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00054/  
15282—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Sahastrakoot Marketing Services Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tirupati Portfolio Lease and Financing Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00055/  
15285—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Tirupati Portfolio Lease and Financing Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
the register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Asahi Agro Foods Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00058/  
15288—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Asahi Agro Foods Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pushpraj Foods Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00059/  
15291—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Pushpraj Foods Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ramniya Finlease Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00060/  
15294—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Ramniya Finlease Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Avani Gruh Finance Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00063/  
15297—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Avani Gruh Finance Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Savita Techno Engineering Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00152/  
15300—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Savita Techno Engineering Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anmol Milk Products Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00153/  
15303—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Anmol Milk Products Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rushabh Raffia Industries Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00154/  
15306—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Rushabh Raffia Industries Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Supreme Orchard Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00156/  
15309—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Supreme Orchard Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ginia Overseas Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00158/  
15312—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Ginia Overseas Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Harshvardhan Builders and Developers Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00160/  
15315—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Harshvardhan Builders and Developers Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
the register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhara Woodcraft Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00161/  
15318—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Dhara Woodcraft Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajdeep Infrastructures Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00162/  
15321—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Rajdeep Infrastructures Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Akshar Courier and Services Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00163/  
15324—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Akshar Courier and Services Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zest Finlease Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00165/  
15327—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Zest Finlease Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Avisha Organics Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00069/  
15330—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Avisha Organics Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jeevandhara Securities Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00070/  
15335—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Jeevandhara Securities Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arrow Healthcare Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/0072/  
15336—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Arrow Healthcare Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Accurate Industrial Machineries Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00074/  
15339—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Accurate Industrial Machineries Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alpine Capital Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00077/  
15342—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Alpine Capital Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashiana Incap Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00080/  
15345—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Ashiana Incap Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Advance Dwelling Finance Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00082/  
15348—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Advance Dwelling Finance Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajvansh Finance Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00084/  
15351—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Rajvansh Finance Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saikrupa Syntex Industries Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00085/  
15354—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Saikrupa Syntex Industries Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zest Fashions Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00090/  
15357—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Zest Fashions Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ridhdhi Advisory Services Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00093/  
15360—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Ridhdhi Advisory Services Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhruv Fintrade Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00096/  
15363—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Dhruv Fintrade Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Montex Chem-Tech Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00101/  
15366—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Montex Chem-Tech Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Meera Marine Industries Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00104/  
15369—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Meera Marine Industries Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hydron Sawa Kaolin Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00107/  
15372—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Hydron Sawa Kaolin Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vasundhara Pleasure Points Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00111/  
15375—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Vasundhara Pleasure Points Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Silvera Metalcast Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00115/  
15378—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Silvera Metalcast Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manav Land Development Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00117/  
15381—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Manav Land Development Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parivar Commercial Credit Company Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00119/  
15384—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Parivar Commercial Credit Company Limited  
unless cause is shown to the contrary, will be struck off  
the register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Artham Financial Services Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00122/  
15387—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Artham Financial Services Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Panchdeep Consultant Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00124/  
15390—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Shree Panchdeep Consultant Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nature Pharma Chem Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00126/  
15393—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Nature Pharma Chem Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sutaria Project Consultants Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00127/  
15396—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Sutaria Project Consultants Limited unless cause  
is shown to the contrary, will be struck off the register  
and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gujarat Real Estate Promoters Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00131/  
15399—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Gujarat Real Estate Promoters Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Graphic Realm Private Limited

Ahmedabad-380013, the 21st October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00132/  
15402—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Graphic Realm Private Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanchan Resources Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00137/  
15405—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Kanchan Resources Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhagyoday (Gujarat) Finstock Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00139/  
15408—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Bhagyoday (Gujarat) Finstock Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Excel Resorts Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00142/  
15411—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Excel Resorts Limited unless cause is shown to  
the contrary, will be struck off the register and the said  
Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Adonis Industries Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00145/  
15414—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Adonis Industries Limited unless cause is shown  
to the contrary, will be struck off the register and the  
said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dharnidhar Estate and Finstock Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd October 2010

No. 560(3)MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00361/  
15417—Notice is hereby given pursuant to sub-section  
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Dharnidhar Estate and Finstock Limited unless  
cause is shown to the contrary, will be struck off the  
register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parul Spun and Silk Mills Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd October 2010

No. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00362/15420—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parul Spun and Silk Mills Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nimrod Pharmaceuticals Limited

Ahmedabad-380013, the 22nd October 2010

No. 560(3)/MCA/RoC-Ahmedabad/Sec 560/2010/00365/15423—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Nimrod Pharmaceuticals Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Delta Electro-Tech (India) Private Limited

Ahmedabad-380013, the 25th October 2010

No. RoC/15577—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Delta Electro-Tech (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

VILAS SAMBHAJI HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Kolkata, the 22nd October 2010

No. RoC/WB/IPC/560 S/M/2010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 7

Companies are annexed here with, have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1.	096205	M/s. Alishan Binimay Private Limited
2.	096122	M/s. Aman Vyapaar Private Limited
3.	096249	M/s. Agomoni Merchants Private Limited
4.	096291	M/s. Ashapura Distributors Private Limited
5.	096124	M/s. Debnath Vyapaar Private Limited
6.	096123	M/s. Ektaa Vyapaar Private Limited
7.	096440	M/s. Gateway Binimay Private Limited

HARIHAR SAHOO  
Asstt. Registrar of Companies  
West Bengal

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Raja Ali Tea Estate Private Limited

Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/7650—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Raja Ali Tea Estate Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Meghalaya Jute Manufacturing Company Private  
Limited

Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/1416—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meghalaya Jute Manufacturing Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. ISB India Private Limited

Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/3171—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the

name of M/s. ISB India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Phoebus Enterprise Private Limited  
Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/4610—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Phoebus Enterprise Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Patowary Export Private Limited  
Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/6791—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Patowary Export Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Prodev Consultants Private Limited  
Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/2107—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prodev Consultants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Milliard Mercantile India Private Limited  
Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/5889—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the

name of M/s. Milliard Mercantile India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Rabs Builder Private Limited  
Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/8110—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rabs Builder Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Zoram Construction Company Private Limited  
Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/5885—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zoram Construction Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Charu Polyolefin Systems Private Limited  
Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/7966—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Charu Polyolefin Systems Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Yaswi Commercial Private Limited  
Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/6647—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the

name of M/s. Yaswi Commercial Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Dimapur Institute of Nursing Private Limited

Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/8241—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dimapur Institute of Nursing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Shillong Institute of Nursing Private Limited

Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/8260—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shillong Institute of Nursing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Kushal Brothers Builders Private Limited

Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/4442—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kushal Brothers Builders Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. SPA Associates Private Limited

Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/5034—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the

name of M/s. SPA Associates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Maa Baba Transport Private Limited

Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/7334—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maa Baba Transport Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Delplas India Private Limited

Shillong-793001, the 11th October 2010

No. 560(5)/2641—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Delplas India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DIP NARAYAN CHOWDHURY  
Asstt. Registrar of Companies  
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,  
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753001, the 20th October 2010

No. RoC/Sec. 560(3)/4236—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	2.	3.
1.	15-000575	M/s. Unique Rubber Industries Private Limited
2.	15-000852	M/s. Orissa Fish Seed Development Corporation Limited
3.	15-003934	M/s. Restoration and Rehabilitation Private Limited

1.	2.	3
4.	15-004181	M/s. Orissa Club Limited
5.	15-004660	M/s. Aaren Foods Private Limited
6.	15-006650	M/s. Fiza Plantations Private Limited
7.	15-008919	M/s. Spy Eye Associates Private Limited
8.	15-009585	M/s. Eastern Polymers Private Limited
9.	15-009943	M/s. Primordial Arts & Exports Private Limited
10.	15-010233	M/s. Dalema Foods Private Limited
11.	15-011917	M/s. Aadi Prints Private Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Paramount Granites Limited

Chennai-600034, the 22nd October 2010

No. 560(3)/MCA/RoC-Chennai/Sec 560/2010/00209—  
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of  
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the  
expiration of three months from the date hereof the name  
of M/s. Paramount Granites Limited unless cause is  
shown to the contrary, will be struck off the register and  
the said Company will be dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Andaman & Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Hema Benefit Fund Limited

Chennai-600034, the 22nd October 2010

No. 26431/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant  
to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956  
that the name of M/s. Hema Benefit Fund Limited has this  
day been struck off the register and the said company is  
dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Andaman & Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Brahms Finsoft Consulting Services Private Limited

Chennai-600034, the 22nd October 2010

No. 35264/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant  
to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956  
that the name of M/s. Brahms Finsoft Consulting Services  
Private Limited has this day been struck off the register and  
the said company is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Andaman & Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Neelkanth Marketing Private Limited

Chennai-600034, the 22nd October 2010

No. 36837/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant  
to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956  
that the name of M/s. Neelkanth Marketing Private Limited  
has this day been struck off the register and the said company  
is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Andaman & Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Neelkanth Marketing Private Limited

Chennai-600034, the 22nd October 2010

No. 37080/560(5)/2010—Notice is hereby given pursuant  
to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956  
that the name of M/s. Neelkanth Marketing Private Limited  
has this day been struck off the register and the said company  
is dissolved.

V. C. DAVEY  
Registrar of Companies  
Andaman & Nicobar Islands